

विषय-सूची

| | |
|---|---------|
| 1. समाजशास्त्र का अर्थ, विषयवस्तु तथा क्षेत्र, उत्पत्ति एवं विकास; समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों से सम्बन्ध..... | 3–13 |
| 2. समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक-अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेन्सर, इमाइल दुर्खीम एवं मैक्स वेबर, भारतीय विचारक—श्री अरविन्दो, गांधी, राधाकमल मुखर्जी, भगवानदास..... | 14–39 |
| 3. प्रकार्यवाद, संघर्ष का सिद्धान्त, सामाजिक विनिमय का सिद्धान्त, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रघटनाशास्त्र | 40–50 |
| 4. प्रमुख सामाजिक संस्थाएँ—परिवार, विवाह, धर्म | 51–81 |
| 5. प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाएँ—सहयोग, संघर्ष | 82–88 |
| 6. प्राथमिक अवधारणाएँ—सामाजिक समूह, समिति, संस्था, समुदाय, सामाजिक स्तरीकरण..... | 89–110 |
| 7. भौगोलिक पर्यावरण एवं समाज | 111–117 |
| 8. संस्कृति एवं व्यक्तित्व | 118–131 |
| 9. समाजीकरण | 132–141 |
| 10. सामाजिक नियंत्रण | 142–148 |
| 11. सामाजिक परिवर्तन | 149–157 |
| 12. हिन्दू सामाजिक संगठन—वर्णाश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, संस्कार, कर्म का सिद्धान्त, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था | 158–178 |
| 13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित समस्याएँ, भारतीय स्त्रियाँ एवं उनसे सम्बन्धित समस्याएँ | 179–190 |
| 14. भारत में पंचायती राज | 191–194 |
| 15. संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, आधुनिकीकरण एवं सार्वभौमीकरण... | 195–198 |
| 16. सामाजिक गतिशीलता, औद्योगीकरण, प्रवसन एवं नगरीकरण | 199–207 |

| | |
|--|---------|
| 17. सामाजिक विघटन की अवधारणा, वैयक्तिक विघटन एवं पारिवारिक विघटन, अपराध एवं बाल अपराध, श्वेतवसन अपराध, कारण एवं सुधार के उपाय | 208–218 |
| 18. सामाजिक समस्याएँ—बेकारी, निर्धनता, मद्यपान एवं मादक द्रव्य, व्यसन, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति | 219–226 |
| 19. जनसंख्या की समस्या, समाज कल्याण कार्यक्रम | 227–252 |
| ● प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक..... | 253 |
| ● प्रमुख सिद्धान्त/अवधारणाएँ एवं उनके प्रतिपादक | 259 |
| ● महत्वपूर्ण कथन | 261 |
| ● महत्वपूर्ण अधिनियम | 263 |
| ● प्रमुख समाजशास्त्री एवं उनका कार्यकाल | 264 |
